



नकली शराब कारखाने का किया भंडाफोड़, 550 कार्टून शराब जब्त

Publish Date: Wed, 05 Feb 2020 06:16 AM (IST)

संवादसूत्र, कालियागंज : हैमताबाद प्रखंड अंतर्गत नूरपुर ग्राम वासियों की तत्परता से जिला आबकारी विभाग ने एक बड़ा नकली विदेशी शराब कारखाने का भंडाफोड़ कर विभिन्न नामी ब्रांडो के लेबल लगे 550 कार्टून नकली विदेशी शराब को जब्त किया। इसके साथ मौके पर मौजूद एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया, जो वहां का रसोईया बताया जाता है।

सूत्रों के अनुसार मंगलवार को स्थानीय लोगों को भनक लगी कि ईलाका स्थित उक्त गोदामों में गोपनीय रूप से नकली विदेशी शराब तैयार की जाती है, यह गोदाम एक स्थानीय का है। जिसको एक नेता भूसी रखने के नाम पर किराए में लिया था। इसलिए मंगलवार दोपहर ईलाके के लोगों को संदेह होने पर उक्त गोदाम को घेरकर हैमताबाद थाना पुलिस को जानकारी दी, मौके पर हैमताबाद थाना पुलिस पहुंचने के बाद उक्त मामले की जानकारी जिला आबकारी विभाग को दी गई।

तत्पश्चात कालियागंज, रायगंज एवं दालकोला आबकारी विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से जिला आबकारी विभाग के अतिरिक्त अधीक्षक तन्मय गुहा के नेतृत्व में दल बल के साथ नूरपुर पहुंचकर उक्त गोदामों को खोला गया, तो अधिकारी देखकर दंग रह गए। कोई दस या बीस कार्टून नहीं, बल्कि गोदामों में विभिन्न नामी ब्रांडो की 550 कार्टून नकली विदेशी शराब रखा गया था। प्रारम्भिक पूछताछ के क्रम में अधिकारियों ने कुछ भी बताने से इनकार किया। उनका कहना था कि इससे जाँच पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। वही ईलाके में चर्चा जोरो पर है कि उक्त कारखाना सत्तारूढ़ दल के एक श्रमिक नेता का है। वही सम्बंधित अधिकारियों द्वारा गम्भीरता से तहकीकात जारी है।

Source: <https://www.jagran.com/west-bengal/uttar-dinajpur-kaliyaganj-news-19999800.html>